



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



**संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001**  
**Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,**  
**Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502**

6 जून 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश**

| 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* |       |       |       |        |        |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| (₹ करोड़)                                     |       |       |       |        |        |
| मद                                            | 2024  | 2025  |       |        | घट-बढ़ |
|                                               | 31 मई | 23 मई | 30 मई | सप्ताह | वर्ष   |
|                                               | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      |
| <b>4. ऋण और अग्रिम</b>                        |       |       |       |        |        |
| 4.1 केंद्र सरकार                              | -     | 0     | 0     | 0      | 0      |
| 4.2 राज्य सरकारें                             | 10723 | 24410 | 27482 | 3072   | 16759  |

\* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

| 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि*        |                |               |                            |              |                          |              |               |              |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| मद                                    | 30 मई 2025 तक  |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |              |                          |              |               |              |
|                                       |                |               | सप्ताह                     |              | मार्च 2025 की समाप्ति पर |              | वर्ष          |              |
|                                       | ₹ करोड़        | मिलियन अ.\$   | ₹ करोड़                    | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़                  | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़       | मिलियन अ.\$  |
|                                       | 1              | 2             | 3                          | 4            | 5                        | 6            | 7             | 8            |
| <b>1 कुल आरक्षित निधि</b>             | <b>5916602</b> | <b>691485</b> | <b>13676</b>               | <b>-1237</b> | <b>204461</b>            | <b>23158</b> | <b>478464</b> | <b>39975</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#           | 4998795        | 584215        | 4029                       | -1952        | 147961                   | 16658        | 219553        | 11651        |
| 1.2 स्वर्ण                            | 721351         | 84305         | 9141                       | 723          | 53188                    | 6129         | 249729        | 27804        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                 | 158885         | 18569         | 644                        | -2           | 3596                     | 400          | 7650          | 451          |
| 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | 37571          | 4395          | -138                       | -6           | -285                     | -28          | 1532          | 69           |

\* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि और (डी) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के विलपोषण में रिज़र्व बैंक का योगदान शामिल नहीं है।

| 4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार |                     |               |                            |               |                |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| (₹ करोड़)                                     |                     |               |                            |               |                |                |
| मद                                            | 16 मई 2025 को बकाया | पखवाड़ा       | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                |                |
|                                               |                     |               | वित्त वर्ष में अब तक       |               | वर्ष -दर-वर्ष  |                |
|                                               |                     |               | 2024-25                    | 2025-26       | 2024           | 2025           |
|                                               | 1                   | 2             | 3                          | 4             | 5              | 6              |
| <b>2 अन्यो के प्रति देयताएं</b>               |                     |               |                            |               |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 22887589            | -146657       | 339554                     | 306987        | 2438424        | 2072809        |
|                                               | (22831373)          |               |                            |               | (2338976)      | (2116040)      |
| 2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)                      |                     | -0.6          | 1.7                        | 1.4           | 13.3           | 10             |
|                                               |                     |               |                            |               | (12.7)         | (10.2)         |
| 2.1.1 मांग                                    | 2841891             | -76422        | -36099                     | 143842        | 286095         | 434137         |
| 2.1.2 मीयादी                                  | 20045697            | -70235        | 375653                     | 163145        | 2152329        | 1638672        |
| 2.2 उधार                                      | 893728              | 25049         | -2218                      | -21520        | 322135         | 118004         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 998207              | -34126        | -28639                     | -63425        | 113787         | 89418          |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>18228296</b>     | <b>-56661</b> | <b>168850</b>              | <b>-15676</b> | <b>2707043</b> | <b>1627282</b> |
|                                               | (17821589)          |               |                            |               | (2192385)      | (1735233)      |
| 7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)                        |                     | -0.3          | 1.0                        | -0.1          | 19.5           | 9.8            |
|                                               |                     |               |                            |               | (15.8)         | (10.8)         |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 68078               | 5632          | 18193                      | 31547         | 4924           | 26805          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 18160218            | -62293        | 150657                     | -47224        | 2702119        | 1600477        |

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़े में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## 6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                     | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |        |                      |      |          |        |              |      |           |        |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|--------|----------------------|------|----------|--------|--------------|------|-----------|--------|
|                                        | 2025           |            | पखवाड़ा                    |        | वित्त वर्ष में अब तक |      |          |        | वर्ष-दर-वर्ष |      |           |        |
|                                        |                |            |                            |        | 2024-25              |      | 2025-26* |        | 2024         |      | 2025      |        |
|                                        | 21 मार्च       | 16 मई      | राशि                       | %      | राशि                 | %    | राशि     | %      | राशि         | %    | राशि      | %      |
|                                        | 1              | 2          | 3                          | 4      | 5                    | 6    | 7        | 8      | 9            | 10   | 11        | 12     |
| एम3                                    | 27214355       | 27650909   | -116408                    | -0.4   | 422326               | 1.7  | 436555   | 1.6    | 2487134      | 10.9 | 2396966   | 9.5    |
|                                        | (27273801)     | (27707125) | (-117525)                  | (-0.4) |                      |      | (433324) | (1.6)  |              |      | (2353734) | (9.3)  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                |                |            |                            |        |                      |      |          |        |              |      |           |        |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                 | 3620845        | 3745199    | 31957                      | 0.9    | 77978                | 2.3  | 124354   | 3.4    | 116863       | 3.5  | 256945    | 7.4    |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि         | 2840023        | 2984787    | -77040                     | -2.5   | -34781               | -1.3 | 144764   | 5.1    | 291205       | 12.9 | 432680    | 17.0   |
| 1.3 बैंकों के पास सीयादी जमा राशि      | 20643062       | 20815377   | -70521                     | -0.3   | 386270               | 2.1  | 172315   | 0.8    | 2059665      | 12.1 | 1689189   | 8.8    |
|                                        | (20702508)     | (20871593) | (-71638)                   | (-0.3) |                      |      | (169084) | (0.8)  |              |      | (1645957) | (8.6)  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि | 110426         | 105547     | -805                       | -0.8   | -7141                | -7.6 | -4879    | -4.4   | 19401        | 28.5 | 18152     | 20.8   |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)          |                |            |                            |        |                      |      |          |        |              |      |           |        |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण              | 8135829        | 8686632    | 60486                      | 0.7    | 18007                | 0.2  | 550803   | 6.8    | 394085       | 5.5  | 1156609   | 15.4   |
|                                        | (8183590)      | (8733214)  | (60485)                    | (0.7)  |                      |      | (549625) | (6.7)  |              |      | (1117796) | (14.7) |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                     | 1180870        | 1746157    | 93555                      |        | -83330               |      | 565287   |        | -174185      |      | 636274    |        |
| 2.1.2 अन्य बैंक                        | 6954959        | 6940475    | -33068                     | -0.5   | 101337               | 1.6  | -14485   | -0.2   | 568270       | 9.7  | 520335    | 8.1    |
|                                        | (7002720)      | (6987058)  | (-33069)                   | (-0.5) |                      |      | (-15662) | (-0.2) |              |      | (481522)  | (7.4)  |
| 2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण       | 18644339       | 18628733   | -54645                     | -0.3   | 178304               | 1.1  | -15607   | -0.1   | 2217377      | 15.2 | 1778284   | 10.6   |
|                                        | (19065706)     | (19035439) | (-58427)                   | (-0.3) |                      |      | (-30267) | (-0.2) |              |      | (1670332) | (9.6)  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                     | 35823          | 19079      | -1682                      |        | -3032                |      | -16744   |        | 5511         |      | 7705      |        |
| 2.2.2 अन्य बैंक                        | 18608516       | 18609653   | -52963                     | -0.3   | 181336               | 1.1  | 1137     | 0.0    | 2211865      | 15.1 | 1770579   | 10.5   |
|                                        | (19029883)     | (19016360) | (-56745)                   | (-0.3) |                      |      | (-13523) | (-0.1) |              |      | (1662627) | (9.6)  |

\*: 21 मार्च 2025 के संबंध में

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## 8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

| तारीख                                                      | चलनिधि समायोजन सुविधा |                 |                  |                             |         |         | स्थायी चलनिधि सुविधायें | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
|                                                            | रेपो                  | प्रतिवर्ती रेपो | परिवर्ती दर रेपो | परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो | एमएसएफ़ | एसडीएफ़ |                         | विक्रय         | क्रय |                                                      |
|                                                            |                       | 2               | 3                | 4                           | 5       | 6       |                         | 8              | 9    |                                                      |
| 26 मई 2025                                                 | -                     | -               | 4073             | -                           | 2476    | 210831  | -                       | -              | -    | -204282                                              |
| 27 मई 2025                                                 | -                     | -               | 3542             | -                           | 902     | 227421  | -                       | -              | -    | -222977                                              |
| 28 मई 2025                                                 | -                     | -               | 3843             | -                           | 606     | 229136  | -1113                   | -              | -    | -225800                                              |
| 29 मई 2025                                                 | -                     | -               | 3335             | -                           | 1062    | 218709  | 972                     | -              | -    | -213340                                              |
| 30 मई 2025                                                 | -                     | -               | 8721             | -                           | 1540    | 229098  | -                       | -              | -    | -218837                                              |
| 31 मई 2025                                                 | -                     | -               | -                | -                           | 1005    | 246776  | -                       | -              | -    | -245771                                              |
| 01 जून 2025                                                | -                     | -               | -                | -                           | 922     | 231621  | -                       | -              | -    | -230699                                              |
| एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा। |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट <https://wss.rbi.org.in/> पर देखी जा सकती है।डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस संबंधी हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762>) में उपलब्ध हैं।समय शृंखला आंकड़े <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

अजीत प्रसाद